

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 — अग्रहायण 26, शक 1940

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्र./8234/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.— छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत मंडी शुल्क में छूट नियम, 2014 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इस से प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात्, विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, कक्ष क्र. एस-3-24, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 5 में,—

- (एक) उप-नियम (1) में, शब्द “संभागीय संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड” के स्थान पर, शब्द “संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि विपणन” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (दो) उप-नियम (1) में, खण्ड (तीन) में, शब्द “छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (तीन) उप-नियम (2) में, शब्द “मण्डी बोर्ड” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (चार) उप-नियम (6) में, खण्ड (एक) में, उप-खण्ड (4) में, शब्द “संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड” के स्थान पर, शब्द “संयुक्त संचालक, कृषि विपणन” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (पांच) उप-नियम (6) में, खण्ड(दो) में, उप-खण्ड(2) में, शब्द “प्रबंध संचालक” के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

- (छः) उप-नियम (6) में, खण्ड (दो) में, उप-खण्ड (4) में, शब्द "प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड" के स्थान पर, शब्द "संचालक, कृषि विपणन" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.